

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2018/चैत्र 22, 1940 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 490
No. 81] DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2018/CHAITRA 22, 1940 [N.C.T.D. No. 490

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

फा.स. आर. 250/टी.ओ. (एस.)/टी. सी. फेलिंग/17-18/277-85.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29(1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डी.ओ.सी. (आपूर्ति) डी.जी.एस. एंड डी., 16 ए, अकबर रोड, नई दिल्ली में नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.77 हेक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र में वृक्षों की कुल संख्या	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	बचाये जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
डी.ओ.सी. (आपूर्ति), डी.जी.एस. एंड डी., 16 ए, अकबर रोड, नई दिल्ली में नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 1.77 हेक्टेयर में।	214	113	101	1130 (100% उपभोगी संस्था द्वारा)
योग	214	113	101	1130

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक यानि वाणिज्य विभाग, डी.जी.एस. एंड डी. भारत सरकार को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 64,41,000/-रुपये (चौसठ लाख इकतालीस हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था द्वारा एन.आई.टी नरेला, सेक्टर-07, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नरेला, दिल्ली तथा प्रोजेक्ट स्थान पर किया जायेगा।	1130	64,41,000/-	उप-वन संरक्षक (दक्षिणी)/ वन अधिकारी

- (ख) 1130 पौधों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था अर्थात वाणिज्य विभाग, डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा निम्नलिखित जगहों पर 113 हटाए जाने वाले वृक्षों के बदले में किया जायेगा और उनका सात वर्षों तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निम्न प्रकार निगरानी की जाएगी :-

- (i) 940 पौधों का एन.आई.टी. नरेला, सेक्टर-07, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नरेला, दिल्ली पर निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), दिल्ली के प्रमाण-पत्र दिनांक 01.02.2018 के अनुसार, किया जायेगा (साईट के कोरडीनेट Lat. 28°48'55.67"N Long. 77° 7'58.84"E);
- (ii) 200 पौधों का उसी साईट 16 ए, अकबर रोड नई दिल्ली पर किया जायेगा।
- (ग) 113 वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूमि स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी।
- (घ) वाणिज्य विभाग, डी.जी.एस. एंड डी. भारत सरकार द्वारा वृक्षों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए और प्राप्त रसीद को उप-वन संरक्षक (दक्षिणी) को जमा की जाये।
- (ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की दुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2018

F.No.R.250/TO(S)/TC-Felling/17-18/277-85.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 1.77 ha. (approx.) as detailed below for construction of New Office Building of DOC (Supply), DGS & D at 16A, Akbar Road, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	Total nos. of trees in the area.	Number of trees required to be removed.	Number of trees to be saved.	Compensatory plantation required. (Number of trees)
Construction of New Office Building of DOC (Supply),	214	113	101	1130 (100% by User)

DGS & D at 16A, Akbar Road, New Delhi in 1.77 ha.				agency).
Total	214	113	101	1130

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

- a) The applicant viz Department of Commerce, DGS & D, Govt. of India shall make an advance deposit of an amount of Rs. 64,41,000/- (Rupees Sixty Four Lakh Forty One Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation.	Number of saplings to be planted (Number of trees).	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
1.	100% compensatory plantation will be done by User Agency at NIT Narela, Sector-07, Institutional Area, Narela, Delhi and at Project Site.	1130	64,41,000/- /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

- b) 100% compensatory plantation of 1130 plants will be done by User Agency viz Department of Commerce, DGS & D, Govt. of India at the following locations against felling of 113 trees and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment in following manner:-
- 940 numbers of trees at NIT Narela, Sector-07, Institutional Area, Narela, Delhi as per certificate dated 01.02.2018 of Director National Institute of Technology (NIT), Delhi (Coordinate of site Lat. 28°48'55.67"N Long. 77° 7'58.84"E);
 - 200 numbers of trees at 16 A, Akbar Road on site New Delhi.
- c) The timber obtained from felling of 113 trees shall be auctioned by the land owning agency and the proceeds shall be deposited as revenue to the Government.
- d) The lops and tops obtained on removal of trees shall be handed over by the Department of Commerce, DGS & D, Govt. of India to the officials concerned of Municipal Corporation of Delhi for its use in public crematoria of Delhi free of cost and receipt so obtained may be deposited with DCF (South).
- e) Before shifting of timber if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South).

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Secy. (Env. & Forests)